

प्रमाणित किया गया है
कि इस पंजी में कुल
100 (एक सौ) पन्ना हैं

15.04.21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा

- 1) माफीपुस्तक सं. - 08/2020-21
- 2) योजना सं. - 8/2020-21.
- 3) मद - पंचायत स्तर पर भवन
निर्माण
- 4) योजना का नाम - सिंहेश्वर प्रखण्ड
दुलार पिपराही ग्राम पंचायत में
पंचायत स्तर पर भवन निर्माण
- 5) प्राक्कलित राशि: 1,29,66,300:00
- 6) अधिकारी - भाम पंडुलार
पिपराही

15.04.21

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा

List on A/C Bill

1

Name of Work—
 Situation of Work—
 Agency by which work is executed—
 Date of Measurement—
 No. and date of agreement

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurement relating to each work)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Name of work					
The construction of panchayat sarka					
okawan of gat dular piprahi					
panchayat under singheshwar					
Block, dist - Madhepura					
Name of Agency					
Gram panchayat dular					
dular piprahi					

Date of commencement

Date of completion

Record Entry
Main Block
Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
Date of Entry -					06/10/2020
1/1 surface dressing of the ground -					
- all complete job					
					$1 \times 67.44 \times 55.44 = 3685.44 \text{ m}^2$
2/2 providing earth work in excavation in do complete job					
					$R_1. 2 \times 0.855 \times 0.80 = 1.37 \text{ m}^2$
					$1 \times 3.055 \times 0.80 \text{ m} = 2.44 \text{ m}^2$
					$1 \times 6.50 \times 0.80 \text{ m} = 1.32 \text{ m}^2$

					$1 \times 2.118 \text{ m} \times 0.80 \text{ m} = 1.69 \text{ m}^2$
					$2 \times 5.924 \text{ m} \times 0.80 \text{ m} = 9.48 \text{ m}^2$
					$2 \times 1.75 \text{ m} \times 0.80 \text{ m} = 2.80 \text{ m}^2$
					$2 \times 1.1 \text{ m} \times 0.8 \text{ m} = 1.76 \text{ m}^2$
					$1 \times 16.258 \text{ m} \times 0.8 \text{ m} = 13.01 \text{ m}^2$
					$2 \times 0.39 \times 0.80 \text{ m} = 6.52 \text{ m}^2$
					$1 \times 16.258 \text{ m} \times 0.80 \text{ m} = 13.01 \text{ m}^2$
					53.80 m^2
					$f2. 6 \times 4.73 \times 1.0 \text{ m} = 28.38 \text{ m}^2$
					$2 \times 8.985 \text{ m} \times 1.0 \text{ m} = 16.9 \text{ m}^2$
					$2 \times 0.70 \text{ m} \times 1.0 \text{ m} = 1.40 \text{ m}^2$
					$2 \times 2.145 \text{ m} \times 1.0 \text{ m} = 4.29 \text{ m}^2$
					$2 \times 1.285 \text{ m} \times 1.0 \text{ m} = 2.57 \text{ m}^2$
					$2 \times 2.655 \text{ m} \times 1.0 \text{ m} = 5.31 \text{ m}^2$

Continuation

58.92 m^2

87
Details of actual measurement

Particulars	Details of actual measurement			Conten of are
	No.	L	B	
20/93 Pro. No. 10A one 3/1/18 in four sides				
M.P. Order No 22/93				
		320.62 m ²		
				914412
29/ Pro. Sign board. do				
M.P. Order No 22				
		01 m ²		
				60002L
4/53 Carriage of material				

i) Bricks 226.102 m ³				
				198721.20
ii) Stone chips 228.30 m ³				
				351514.50
iii) coarse sand 287.60 m ³				
				672265.00
iv) Local sand 774.64 m ³				
				205752.00
Difference cost of materials				
(i) Cement 98.85 m ³				
				347.85/m ³
				34385.00

Continuation

C-02 70,63,130.00

Sch. XLV-Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
					B 706313020
Less C.P.	9.09				B 64203820
					B 642109220
Less 1st on A/C Bill					B 251219320
" 2nd "					B 162731220
" 3rd "					B 52312520
" 4th "					B 104700320
					B 71195920
<i>[Signature]</i>					
10/01/22					
J.E					
